

दिनांक 16.12.2016 को आयोजित संयुक्त राजभाषा कार्यशाला एक रिपोर्ट

राजभाषा विभाग, भारत सरकार और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर में दिनांक 16 दिसंबर 2016 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित किया गया ।

यह कार्यशाला भौतिकी संस्थान, भारी पानी संयंत्र (तालचेर), और राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर के संयुक्त प्रयास से आयोजित हुआ ।

कार्यशाला में भौतिकी संस्थान से 05 अधिकारी और 7 कर्मचारियों, भारी पानी संयंत्र (तालचेर) से 1 अधिकारी और 12 कर्मचारियों तथा राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर से 1 अधिकारी और 5 कर्मचारियों ने भाग लिया था ।

कार्यशाला का उद्घाटन सत्र में, श्री ऋषि कुमार रथ, रजिस्ट्रार, भौतिकी संस्थान ने उपस्थित प्रतिभागियों और अतिथियों को स्वागत किया और स्वागत भाषण में हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के लिए सभी से आग्रह किया । कार्यशाला का उद्घाटन प्रो. सुधाकर पंडा, निदेशक, भौतिकी संस्थान ने किया । प्रो. पंडा ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए अपने संबोधन में सभी प्रतिभागियों से अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का आग्रह किया। सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित डॉ. अभय कुमार नायक, रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान ने अपने संबोधन में कहाकि कार्यशाला का अधिकाधिक लाभ उठायें और कार्यालयीन

कामकाज को हिंदी में करते समय आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करें।

आयोजित कार्यशाला के प्रथम सत्र में श्री भगवान बेहेरा, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, भौतिकी संस्थान द्वारा हिंदी भाषा की डिजिटल टूल्स और राजभाषा कार्यान्वयन के बारे में जाँच बिंदु पर व्याख्यान प्रस्तुत किए गए ।

इस कार्यशाला में मुख्य व्याख्याता के रूप में आमंत्रित श्री वीरेंद्र वी. कुलकर्णी, उप-निदेशक (राजभाषा), भारी पानी बोर्ड, मुंबई ने राजभाषा नीति और हिंदी वर्तनी की मानकीकरण पर व्याख्यान प्रस्तुत किया ।

कार्यशाला समापन सत्र में व्याख्याताओं ने प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं, प्रश्नों और समस्याओं का समाधान किया । सभी प्रतिभागियों ने कार्यशाला के आयोजन के संबंध में अपने अपने विचार रखे ।

सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण किट के रूप में एक फोल्डर, पैन और भौतिकी संस्थान द्वारा प्रकाशित “व्यावहारिक राजभाषा संदर्भिका” पुस्तिका प्रदान की गयी ।



कार्यशाला के अवसर पर प्रो.सुधाकर पंडा, निदेशक, आईओपी (बीच में) व्याखाता श्री वी.वी. कुलकर्णी, उप-निदेशक (राजभाषा), भापाबो, मुंबई (बाएं) और डॉ. अभय कुमार नायक, रजिस्ट्रार, नाइजर।

श्री आशुतोष दुबे, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, भारी पानी संयंत्र, तालचेर ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों और अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापन किया । कार्यशाला का संचालन श्री भगवान बेहेरा, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, भौतिकी संस्थान ने किया।



कार्यशाला के प्रतिभागीगण